## LARK TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L34102UP1987PLC009222

Regd.off: C-273, Sector-63 Noida, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh-201301 Telephone-01122159466, Email:<u>Larktradingfinance@gmail.com</u> website: www.larktrading.in

Date: 29.05.2023

Head-Listing & Compliance,

Metropolitan Stock Exchange of
India Ltd.

205(A), 2nd floor, Piramal Agastya
Corporate Park, Kamani Junction, LBS
Road, Kurla (West), Mumbai – 400070.

The Manager
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range, Murgighata,
BBD Bagh, Kolkata
West Bengal – 700001

Security Code: LARK Scrip Code:022126

Sub: <u>Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u>
Regulations, 2015 Newspaper Publication

### Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, enclosed please find herewith copies of the Newspaper Advertisement of the Audited Standalone Financial Results of the company for the quarter and year ended 31st March, 2023 as was approved in the Board meeting held on Friday, 26th May, 2023 (commenced at 04:00 P.M. and concluded at 08:15 P.M.), published in "Business Standard" (English) and in "Business Standard" (Hindi).

This is for your information and record.

Thanking You,
For Lark Trading and Finance Limited

Sumit Tayal Whole time Director DIN: 06598044

Place: Noida

Encl.: As above

JANA SMALL FINANCE BANK

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2
& 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business
Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional Branch Office: 16/12, 2nd
Floor, W.E.A. Arva Samai Road, Karol Ragh, Dalbi 110005

## DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interes (Enforcement) Rules 2002, issued **Demand notice** calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amoun mentioned in the notices with future interest thereon within **60 days** from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Loan Account No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) M/s. The Gurawalia Transport Co. Represented by its Proprietor Mr. Karan Singh, 2) Mr. Karan Singh (Borrower), 3) Mr. Krishan Singh (Guarantor), 4) Mrs. Vidhya (Guarantor), 5) Mrs. Jagroshini (Guarantor), 6) Mrs. Neetu (Guarantor), 7) Mrs. Parmila (Guarantor), 8) Ramesh kumar (Guarantor), 9) Sat Prakash (Guarantor), 10) Nirmala Devi (Guarantor)	45129660002600 &	Details of Secured Assets - Part-'A' - Hypothecated Moveable Assets: First Charge on all Raw materials and stock in the books of account and receivables and book debts of the business premises of the company i.e., M/s. The Gurawalia Transport Co., Bilaspur Chowk, NH-08, Bilaspur, Gurgaon, Haryana-122413.  Part-'B' - Mortgaged Immovable Property - Schedule Properties - Property Detail-1: Khewat No.349/390, Mu No.46, Rakba 0 Kanal 17 Marla 6 Sarsai, Village Bilaspur, Tehsil Manesar, Gurgaon, Haryana-122413. Owned by Mr. Karan Singh, S/o. Mr. Bharat Singh.  Property Detail-2: Khata No.91/111, Mushkil No.30, Killa No.15/1/2(1-2), Area Measuring 87 Sq.yards, Waka Shiwana, Village Bilaspur, Tehsil Manesar, Gurgaon, Haryana-122413. Owned by Mrs. Jag Roshni, W/o. Mr. Bharat Singh. Bounded as: East: Property of Other's, West: Plot of Mrs. Kamla Devi, North: Rasta, South: Plot of Mr. Indrai.	Date of NPA: 20.04.2023 Demand Notice Date: 26-05-2023	Rs. 3,16,89,844/- (Rupees Three Crore Sixteen Lakh Eighty Nine Thousand Eight Hundred Forty Four Only) as of 18-05-2023

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action fo enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited Date: 29.05.2023, Place: Delhi NCR

### **KERALA WATER AUTHORITY** e-Tender Notice

Tender No : 28/2023-24/KWA/PHC/TVLA (Id - 2249/2022\_26\_1\_1)
KIIFB-RWSS to Vallicode Kodumon - Replacing damaged AC pipe from Vallicode OH tank to
Vazhamuttom and Zionkunnu to Kodumon transmission line(Balance Works) including road

EMD : Rs. 1.00.000/-. Tender fee : Rs. 9759/-

Last Date for submitting Tender : 08.06.2023 02:00 pm

KWA-JB-GL-6-365-2023-24

Phone: 04692600162, Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer PH Circle, Pathanamthitta

### **ANDHRA PRADESH TANNERIES LIMITED**

Regd.Office: Leather Complex Area, Nellimerla, Vizianagram District, Andhra Pradesh - 535217 CIN: L19110AP1974PLC001711. Tel No: 022-24934923, Fax No: 022-24934924, Email: csaptl12@gmail.com Website: www.aptl.net.ir

**CORRIGENDUM** TO THE EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023, AND LIMITED REVIEW OF FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2023, OF ANDHRA PRADESH TANNERIES LTD, PUBLISHED ON MAY 26, 2023, IN THIS NEWSPAPER

This is with reference to the extract of the "Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2023, and Limited Review of Financial Results (Standalone) for the quarter ended March 31, 2023" ("Results") published on May 26, 2023, of Andhra Pradesh Tanneries Ltd ("the Company") in this newspaper, we wish to inform our readers that due to inadvertent error in publishing, the name of the Director in the Results was mentioned as "Ms. Sugandha Shelatkar" instead of "Mr. Narasimha Reddi Akkineni". Accordingly, the name of the Director in the Results is to be read as "Mr. Narasimha Reddi Akkineni" and not "Ms Sugandha Shelatkar"

## IFB INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51109WB1974PLC029637

Regd. Office: 14, Taratala Road, Kolkata – 700088

Tel: (091) (33) 3048 9219; Fax: (091) (33) 3048 9230

E-mail: investors@ifbglobal.com Website: www.ifbindustries.com

EXTRACTS OF AUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2023

Rs. in Crores									
	Particulars	0.	arter ende	Consolid		ended			
	Failiculais		31.12.2022						
1.	Total income from		J 12.2022			51.05.EUZZ			
	operations (net)	1010.15	999.16	900.44	4194.99	3415.38			
2.									
	(before tax, exceptional, extraordinary items and share								
	of profit / (loss) of associate)	(3.37)	(3.35)	(43.44)	34.59	(73.66)			
3.									
	before tax (after exceptional, extraordinary items and share								
	of profit / (loss) of associate)	(5.78)	(3.35)	(43.44)	32.18	(73.66)			
4.									
	after tax and non-controlling interest (after exceptional,								
	extraordinary items and share	(0.04)		(00.00)		(10.10)			
5.	of profit / (loss) of associate)	(9.94)	(1.14)	(28.29)	14.94	(48.16)			
Э.	(loss) for the period after								
	non-controlling interest								
	[Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and								
	Other Comprehensive								
	Income/(loss) (after tax)]	(6.47)	0.61	(23.59)	19.21	(47.62)			
б.	Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each)	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28			
7.	Other Equity				626.19	606.98			
8.	Earnings Per Share (before								
	extraordinary items) (of Rs. 10/- each)								
	(not annualised) - In Rs.	(6.15)	/0.00	(0.00)		142.55			
	(a) Basic (b) Diluted	(2.45)	(0.28)	(6.99)	3.69 3.69	(11.89) (11.89)			
۱۵	Earnings Per Share (after	(2.45)	(0.28)	(6.99)	3.09	(11.09)			
•	extraordinary items)								
	(of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs.								
	(a) Basic	(2.45)	(0.28)	(6.99)	3.69	(11.89)			
	(b) Diluted	(2.45)	(0.28)	(6.99)	3.69	(11.89)			
					Rs.	in Crores			
		Standalone							
	Doublesslows								
	Particulars		arter ende	d	Year	ended			
1.			arter ende 31.12.2022	d	Year				
1.	Particulars  Total income from operations (net)			d	Year				
1.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period	31.03.2023	31.12.2022	d 31.03.2022	Year 31.03.2023	31.03.2022			
	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and	<b>31.03.2023</b> 985.04	<b>31.12.2022</b> 976.79	884.31	Year 31.03.2023 4104.05	31.03.2022 3339.00			
2.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	31.03.2023	31.12.2022	d 31.03.2022	Year 31.03.2023	31.03.2022			
	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	<b>31.03.2023</b> 985.04	<b>31.12.2022</b> 976.79	884.31	Year 31.03.2023 4104.05	31.03.2022 3339.00			
2. 3.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	<b>31.03.2023</b> 985.04	<b>31.12.2022</b> 976.79	884.31	Year 31.03.2023 4104.05	31.03.2022 3339.00			
2.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period	985.04 (3.35)	976.79 (3.47)	884.31 (43.68)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40	31.03.2022 3339.00 (76.72)			
2. 3.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional	985.04 (3.35) (3.35)	976.79 (3.47) (3.47)	884.31 (43.68) (43.68)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72)			
2. 3.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	985.04 (3.35)	976.79 (3.47)	884.31 (43.68)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40	31.03.2022 3339.00 (76.72)			
2. 3. 4.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period	985.04 (3.35) (3.35)	976.79 (3.47) (3.47)	884.31 (43.68) (43.68)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72)			
2. 3. 4.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for	985.04 (3.35) (3.35)	976.79 (3.47) (3.47)	884.31 (43.68) (43.68)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72)			
2. 3. 4.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 34.40 17.24	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (other Comprehensive Income/(loss) (after tax) and other Comprehensive Income/(loss) (after tax)]	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/ (loss) (after tax)] Equity share capital	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 34.40 17.24	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income/(loss) (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 37.24 19.37 41.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/ (loss) (after tax)] Equity share capital	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income/(loss) (after tax).] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 37.24 19.37 41.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (affer exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (affer exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (Zomprehensive period (Zomprehensive Income/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 37.24 19.37 41.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs.	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55) (4.07) 41.28	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (affer exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (affer exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (Zomprehensive period (Zomprehensive Income/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38)	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 37.24 19.37 41.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55) (4.07) 41.28	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary rems)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55) (4.07) 41.28	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55) (4.07) 41.28	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary rems)	31.03.2023 985.04 (3.35) (3.35) (7.55) (4.07) 41.28	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64)			
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs.	31.03.2023 985.04 (3.35) (7.55) (4.07) 41.28 (1.86) (1.86)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28	d 31.03.2022 884.31 (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28 4.25 4.25	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64) (12.64)			
2. 3. 4. 5.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/ (loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted	31.03.2023 985.04 (3.35) (7.55) (4.07) 41.28 (1.86) (1.86)	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28 (0.34) (0.34) (0.34)	(43.68) (43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28 (7.04) (7.04) (7.04)	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28 4.25 4.25	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64) (12.64) (12.64)			
2. 3. 4. 5.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Dil	31.03.2023  985.04  (3.35)  (3.35)  (7.55)  (4.07)  41.28  (1.86)  (1.86)  (1.86)  standalone	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28 (0.34) (0.34) (0.34) (0.34)	(43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28 (7.04) (7.04) (7.04) essults of th	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28 4.25 4.25 4.25 e Compai	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64) (12.64) (12.64) any for the			
2. 3. 4. 5.	Total income from operations (net) Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/ (loss) (after tax)] Equity share capital (Face Value - Rs. 10/- each) Other Equity Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised) - In Rs. (a) Basic (b) Diluted	31.03.2023  985.04  (3.35)  (3.35)  (7.55)  (4.07)  41.28  (1.86)  (1.86)  (1.86)  standalone	976.79 (3.47) (3.47) (1.38) (1.83) 41.28  (0.34) (0.34) (0.34)	(43.68) (43.68) (28.52) (24.56) 41.28 (7.04) (7.04) (7.04) (7.04) essults of the paper rev	Year 31.03.2023 4104.05 34.40 34.40 17.24 19.37 41.28 615.28 4.25 4.25 e.e. Comparison of the comparis	31.03.2022 3339.00 (76.72) (76.72) (51.21) (50.58) 41.28 595.91 (12.64) (12.64) (12.64) upy for the the Audit			

The above is an extract of the detailed audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the audited consolidated and standalone financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 are available on the stock exchanges website ww.bseindia.com / www.nseindia.com) and on the company's websit www.ifbindustries.com

On behalf of the Board of Direct

Bikramjit Nag Place : Bengaluru Date : 27 May, 2023 Joint Executive Chairman and Managing Di

## LARK TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L34102UP1987PLC009222 Regd.off.: C-273, Sector-63 Noida, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201301 Telephone: 011 22159466, Email: Larktradingfinance@gmail.com, website: www.larktrading.in Extract of the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and year Ended on 31st March, 2023

(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Particulars	Quarter Ended Year Ended				nded
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income	21.83	18.81	12.26	76.45	69.78
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.73	2.88	-4.02	14.50	8.22
Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.73	2.88	-4.02	14.50	8.22
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.98	2.13	-3.38	8.72	5.68
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	15.98	2.13	-3.38	8.72	5.68
Equity Share Capital	526	526	526	526	526
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-		187.39	178.67
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-					
1. Basic	0.30		-0.06	0.17	0.11
2. Diluted	0.30	0.04	-0.06	0.17	0.11

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange <u>www.msmei.in</u> and on the ebsite of the Company at www.larktrading.in

For Lark Trading and Finance Limited

2406.12

0.55

0.55

2764.04

0.17

0.17

Date: 26.05.2023

Sd/-(Sumit Tayal) (Whole Time Director DIN: 06598044

(Rs. In lakhs)

## **iFGL**

Registered Office

Tel: +91 661 2660195

E-mail: ifgl.works@ifgl.in

Sector 'B', Kalunga Industrial Estate
P.O. Kalunga 770031, Dist. Sundergarh, Odisha

## **IFGL REFRACTORIES LIMITED**

Head & Corporate Office

McLeod House, 3, Netaji Subhas Road Kolkata 700001, Tel: +91 33 40106100 E-mail: ifgl.ho@ifgl.ir investorcomplaints@ifgl.i

Website: www.ifglgroup.com

(₹ in lakhs except as otherwise stated EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023							
Quarter ended Year ended							
Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022		
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
Total Income	37,589	31,831	36,657	139,965	127,539		
Net Profit before Tax from Ordinary Activities	3,959	2,202	2,734	10,570	10,394		
Net Profit after Tax and Exceptional Item	2,942	1,579	2,070	7,921	7,749		
Total Comprehensive Income [Comprising Profit for the period							
after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	3,177	4,522	2,146	9,625	7,958		
Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per Share)	3,604	3,604	3,604	3,604	3,604		
Other Equity 9	-	-	-	96,900	89,800		
Earnings Per Share (of ₹ 10 /- each) Basic and Diluted#	8.16	4.38	5.74	21.98	21.50		

### #Figures for the quarter are not annualised NOTES:

- . Above audited financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 have been reviewed by the Audi
- Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Saturday, May 27, 2023. 2. The Board of Directors, at its meeting on May 27, 2023, have proposed a final dividend of ₹ 7 (70 %) per equity share for the financial year ended 31st March, 2023 subject to the approval of shareholders at the forthcoming Annual General Meeting and following Policy on Dividend Distribution of the Company. Proposed dividend is accounted for in the year in which it is approved by the shareholders.
- Following amendments made by the Finance Act 2021 to the relevant sections of the Income Tax Act 1961, whereby Goodwill arising on amalgamation will not be considered as a depreciable asset and depreciation on goodwill will not be allowable as deductible expenditure effective April 1, 2020, the Holding Company has not claimed deduction of depreciation on such goodwill under income tax for period beginning on that date. The Holding Company management, supported by legal opinions, continues to believe that such deduction claimed in prior assessment years are sustainable and remain unaffected. During the year, the Holding Company's claim of ₹ 2,816 lakhs (tax impact of ₹ 984 lakhs) towards such deduction for Assessment Year 2020-21 has been disallowed. Being aggrieved thereby, the Holding Company has filed ar appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals).
- Monocon International Refractories Ltd, UK, (MIRL) being step down operating subsidiary of the Holding Company acquired 100% shareholding of Sheffield Refractories Ltd, UK (SRL) engaged in manufacturing of Monolithic Refractory Products for total consideration of ₹ 4,981 lakhs (equivalent to GBP 5.0 Million cash consideration and GBP 0.1 million towards costs or acquisition) on February 24, 2023 to offer bigger basket of products and acquire new customer relationships. Effective that date, SRL became subsidiary of MIRL and consequently step down subsidiary of Holding Company. In accordance with Ind AS 103 – Business Combination, the aforesaid purchase consideration has been allocated to the extent of ₹ 1,742 lakhs to property, plant and equipment and ₹ 5,497 lakhs to current assets, current liabilities of ₹ 1,883 lakhs based on thei respective fair values and ₹ 2,584 lakhs towards borrowings assumed. The Holding Company has also recognised intangible assets aggregating ₹ 1,765 lakhs towards Customer Relationships and Brand name/Trade Marks. based on valuation carried out by an independent valuer. The balance amount of purchase consideration being ₹ 444 lakhs has beer recognised in these results as goodwill.
- . Key Stand-alone financial information are as follows:

(₹ in lakhs)

	G	Quarter ende	Year ended		
Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
otal Income	21,761	18,378	24,014	84,557	80,135
let Profit before Tax from Ordinary Activities	3,274	1,766	2,154	8,529	8,720
let Profit after Tax from Ordinary Activities	2,294	1,233	1,566	6,117	6,322
otal Comprehensive Income [Comprising Profit for the period					
fter Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	2,297	1,233	1,547	6,121	6,323

- 6. The figures of the last quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the financial year ended March 31, 2023 and the unaudited published year to date figures up to December 31, 2022, being the date of the end of the third quarter of that financial year, which was subjected to limited review.
- This is an extract of the detailed format of audited Consolidated and Stand-alone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Detailed format of the Audited Consolidated and Stand-alone Financial Results are available on the Websites of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's Website (www.ifglgroup.com).

On behalf of the Board of IFGL Refractories Limited S K Bajoria

Chairmai

Kolkata May 27, 2023







(DIN: 00084004

(Rs. in Lakh except earning per share data)

2764.04

1.91

1.91

2406.12

7.19

7.19

OUR TECHNOLOGY. YOUR SUCCESS

2406.12

0.55

0.55

2406.12

0.66

0.66

2764.04

0.17

0.17



# MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L19129UP1979PLC004821

Regd. Off.: 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001

website: www.mirza.co.in; e-mail: compliance@mirzaindia.com; Tel.: +91 512 2530775 EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

	(no. in Earth except carning per share data)										
			Standalone Consolidated								
SI.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Year	Year	Quarter	Quarter	Quarter	Year	Year
No	·	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended	ended
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	15482.05	11820.72	15683.24	63208.40	140283.73	15791.70	13002.79	16521.37	65803.39	141641.10
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax,	305.35	503.18	539.44	3410.75	11384.07	307.43	506.09	539.44	3596.00	11251.41
	Exceptional and/or Extraordinary Items)										
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax	305.35	503.18	539.44	3410.75	11384.07	307.43	506.09	539.44	3596.00	11251.41
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)										
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	229.52	657.06	498.77	2618.30	8559.92	230.60	659.29	797.72	2644.90	8644.91
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)										
5	Total Comprehensive Income for the period	229.52	657.06	498.77	2546.23	8748.13	285.60	721.59	882.63	2580.88	8801.46
	[Comprising profit/(loss) for the period (after										
	tax) and other comprehensive income (after										
1	4										

2406.12

0.41

0.41

2. Diluted: Notes:

1. Basic:

6 Equity Share Capital

previous vear

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

(for continuing & discontinued operations)

as shown in the Balance sheet of the

8 Earning Per Share (of Rs. 2/- each)

a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly and year ended Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.mirza.co.in.

2764.04

45521.33

1.89

1.89

2406.12

7.11

7.11

43404.40

- b) The above Consolidated Financial Results of Mirza International Limited (The Company) and Subsidiaries (WOS) T N S Hotels and Resorts Private Limited and RTS Fashion Limited are drawn in terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- c) In terms of SEBI circular CIR/CFD/CMD/56/2016 dated May 27,2016, the company hereby declares the auditors have issued audit report with unmodified opinion on annual audited financial results on
- year ended March 31, 2023. d) The Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj vide its Order dated 21st February, 2023 (date of pronouncement or Order) approved the Composite Scheme of Arrangement or RTS Fashions Pvt Ltd, Mirza International Ltd and Redtape Ltd (the Scheme). The Scheme is effective from 1st January, 2022, being the Appointed Date of the Scheme. In terms of the Scheme, RTS Fashions Pvt Ltd has been merged into Mirza International Lid along with all the assets and liabilities, and entire REDTAPE Business of Mirza International Limited has been demerged into Redtape Ltd, with effect from 1st January, 2022. The present Financial Results of the Company have been prepared after giving effect of the Amalgamation and Demerger in terms of the Scheme. Further, figures or the previous Financial Year ended 31st March, 2022, have also been restated to give effect to the Scheme with effect from 1st January, 2022.
- e) Figures for the period have been regrouped/rearranged whenever necessary in order to make them comparable.

For Mirza International Limited

Sd/-(Tauseef Ahmad Mirza) Whole Time Director

(DIN: 00049037)



Date: May 27, 2023

Place: New Delhi

















## लार्क ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L34102UP1987PLC009222

पंजीकृत कार्यालयः सी-273, सेक्टर-63 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश - 201301 टेलीफोनः 011 22159466, ईमेलः Larktradingfinance@gmail.com वेबसाइटः www.larktrading.in 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 47(1) (बी)) (रु. लाख में)

		समाप्त तिमाही		समाप्त	वर्ष
विवरण	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	( लेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	( लेखापरीक्षित )	( लेखापरीक्षित )	( लेखापरीक्षित )
कुल आय	21.83	18.81	12.26	76.45	69.78
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	19.73	2.88	-4.02	14.50	8.22
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	19.73	2.88	-4.02	14.50	8.22
कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	15.98	2.13	-3.38	8.72	5.68
अवधि हेतु कुल व्यापक आय  [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	15.98	2.13	-3.38	8.72	5.68
इक्किटी शेयर पूंजी	526	526	526	526	526
आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है		-		187.39	178.67
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रत्येक) (स्रतत तथा असतत प्रचारनों हेतु)	,				Ų
1. बेसिक	0.30	0.04	-0.06	0.17	0.11
2. डाइल्यूटेड	0.30	0.04	-0.06	0.17	0.11

नोट: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पुर्ण प्रारूप है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msmei.in और कंपनी की वेबसाइट www.larktrading.in पर उपलब्ध है।

> लार्क ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए हस्ता./- (सुमित तायल)

(पूर्णकालिक निदेशक) दिनांक: 26.05.2023 डीआईएन: 06598044 स्थानः नोएडा

### हाई-टेक गियर्स लिमिटेड CIN: L29130HR1986PLC081555 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24, 25, 26 आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूग्राम -122002, हरियाणा

फोन : + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085 वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

मार्च 31, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेत अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

			(रू. मि	नेलियन में, सिवाय	प्रति शेयर डेटा)
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	वर्ष समाप्त
		31/03/2023	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2022
$  \bigcup  $		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	2,874.88	2,908.41	11,771.55	9,785.09
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	102.59	140.40	339.42	109.10
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	102.59	140.40	339.42	109.10
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	166.44	112.42	231.14	(11.02)
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है)]	161.46	187.96	260.64	137.62
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68	187.68
7.	संचेय/अन्य इक्विटी, जैसाकि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है			3,356.58	3,119.75
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) —				
	(क) मूल : (ख) तनुकृत :	8.87 8.86	5.99 5.99	12.32 12.30	(0.59) (0.59)
नोट्	स :-				

स्थान : ऋषिकेश

तिथि : मई 27, 202

- 1) उपरोक्त अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति द्वारा मई 27, 2023 को सम्पन्न इसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए हैं और उसके उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा मई 27, 2023 को सम्पन्न इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
- 2) निदेशक मंडल ने कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर, रू. 10/- (रू. दस मात्र) प्रत्येक के हर इक्विटी शेयर पर रू. 2.50 (रू. दो तथा पैसे पचास मात्र) अर्थात 25% अंतिम लाभांश, सदस्यों द्वारा उनकी वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदन की शर्त पर, संस्तुत किया है। 3) सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में कम्पनी की प्रमुख पृथक्कृत अंकेक्षित वित्तीय जानकारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है

विवरण	तिमाही	तिमाही	वर्ष	वर्ष
	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2022
	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालन से आय और अन्य आय	1,901.55	1,871.05	7,906.05	6,517.49
कर पूर्व लाभ	137.32	185.92	693.95	536.63
कर पश्चात लाभ	127.78	136.88	503.40	385.19

4) उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए मार्च 31, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। मार्च 31, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है।

> कृते एवं हिते निदेशक मंडल दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./

दीप कपूरिया कार्यकारी अध्यक्ष

(रू. मिलियन में)

Regd. Office: Sector 128, Noida 201 304 [U.P] Delhi Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 Phone: +91 (120) 4609000; FAX: +91 (120) 4609464; CIN: L14106UP1995PLC019017 Website: www.ialindia.com, E-mail: ial.investor@ialindia.co.in

## EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

₹ in Lakh

		STAND	ALONE
SI. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2023 [Audited]	Year Ended 31.03.2022 [Audited]
1.	Total Income from Operations	395468	296741
2.	Net Profit / (Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	(93457)	(119858)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(114961)	(121664)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax [after Exceptional and/or Extraordinary Items]	(116224)	(123188)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(115802)	(123018)
6.	Paid up Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	49092	49092
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]	473962	589764
8.	Net Worth	(44772)	71030
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1823249	1830758
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-
11.	Debt Equity Ratio	4.04	3.24
12.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:		
	Basic	₹ (4.73)	₹ (5.02)
	Diluted	₹ (4.73)	₹ (5.02)
13.	Capital Redemption Reserve	113	113
14.	Debenture Redemption Reserve	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio [DSCR]	0.08	0.04
16.	Interest Service Coverage Ratio [ISCR]	0.11	0.05

- [a] The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website www.jalindia.com.
- For the items referred in sub clause (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges.
- Formulae for computation of net worth and ratios are as follows: Net Worth is as per Section 2(57) of Companies Act, 2013. DSCR = Earnings before interest and tax excluding exceptional items / (Interest Expense + Principal Repayment of long term debt made during the period). ISCR = Earnings before interest and tax excluding exceptional items interest expenses

Dated: 27th May, 2023

MANOJ GALIF **Executive Chairman** DIN 00008480

# JANA SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय : फेयरवे, ग्राउंड व पहली मंजिल, सर्वे नं. 10 / 1, 11 / 2, व 12 / 2बी, ऑफ डोमलूर कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चूल्लाघाट, बैंगृलोर—560071 क्षेत्रीय शाखा कार्याल्य : 16 / 12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005

## सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

चूंकि, आप नीचे वर्णित ऋणी, सह—ऋणी, गारंटरों और गिरवीकर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** से ऋण लिया था। आप सुभी के द्वारा प्रतिबद्धता को पूरा करने में असुफल होने पर, आपके ऋण खाते को **नॉन—परफार्मिंग एस्सेट** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबिक, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेंड** मीजदा प्रतिभित्त ऋणेदाता ने प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शिक्तयों के अनपालन में सूचना की तिथि से **60 दिनों** के भीतर उसपर भावी ब्याज के सहित सूचनाओं में वर्णित राशि का मुगतान करने के लिए कॉलम नं. 2 में वर्णित अनसार ऋणी / सह—ऋणी, गारटर / गिरवीकर्ताओं को बुलाने लिए **मांग सूचना** जारी की थी, लेकिन सूचना विभिन्न कारणों से कुछ के द्वारा पूरी नहीं की जा सकी है।

क्र. सं.	ऋणी / सह—ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ता के नाम	ऋण खाता सं. व ऋण खाता	कब्जा की गई प्रतिभूति का विवरण	एनपीए तिथि व मांग सूचना तिथि	रु. में देय राशि / तक
1	सिंह (ऋणी) 3) श्री कृष्ण सिंह (गारंटर), 4) श्रीमती विद्या (गारंटर), 5) श्रीमती जगरोशनी (गारंटर), 6) श्रीमती नीतू (गारंटर), 7) श्रीमती प्रमिला (गारंटर), 8) रमेश कुमार (गारंटर), 9) सत प्रकाश (गारंटर), 10) निर्मला देवी (गारंटर	45129660002600 व 4512020000382554 ऋण पाषी: रु. 2,00,00,000/- रु. 1,00,00,000/- रु. 17,90,000/-	प्रतिभृतित परिसंपत्तियों का विवरण — भाग—'ए' — हाइपोथेकेडिट चलयोग्य संपत्तियां — कंपनी अर्थात् मैसर्स दं गुरवालिया ट्रांसपोर्ट कें. बिलासपुर चौक, एनएच—08, बिलासपुर, गुड़गांव, हरियाणा—122413 कें बिजनेस परिसर कें खाता पुस्तकों में सभी कंच्ची सामग्री और प्राप्तयोग्य व बुक डेब्ट्स पर प्रथम प्रभार भाग—'बी' — गिरवी अचल संपत्ति — अनुसूची संपत्तियां — संपत्ति विवरण 1: खेवत नं. 349 / 390 एमयू नं. 46, रकबा 0 कनल 17 मार्ला 6 सरसई, गांव बिलासपुर, तहसील मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा—122413 श्री करण सिंह पुत्र श्री भारत सिंह के स्वामित्व में संपत्ति विवरण 2: खत्ता नं. 91 / 111, मुरिकल नं. 30, किला नं. 15 / 1 / 2 (1–2), क्षेत्र माप 87 वर्ग यार्ड, वाका शिवाना, गांव बिलासपुर, तहसील मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा—122413, श्रीमती जग रोशनी पत्नी श्री भारत सिंह के स्वामित्व में, सीमाएं निम्नानुसार: पूर्व : दूसरों की संपत्ति, पश्चिम : श्रीमती कमला देवी का प्लॉट, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: श्री इंद्रराज का प्लॉट.		रू. 3,16,89,844 / — (रूपए तीन करोड़ सोलह लाख नवासी हजार आउ सो चवालीस केवल) 18.05.2023 तक

एतदद्वारा कॉलम नं. 2 में वर्णित अनुसार ऋणी / सह—ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ता को इस सूचना के प्रकाशन से **60 दिनों** के भीतर सभी संबंधित ऋणी / सह—ऋणी के विरुद्ध कॉलम नं. 6 में दर्शाए अनुसार समग्र राशि के भुगतान के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उक्त राशि कॉलम नं. 6 में दर्शाई गई तिथि तक संबंधित ऋण खाता के संबंध में देययोग्य पाई गई है। यह स्पष्ट है कि यदि भावी ब्याज व अन्य राशि के सहित समग्र राशि जो भुगतान की तिथि तक देययोग्य बन चुकी है, भुगतान नहीं किया है, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक** लिमिटेड कॉलम नं. 4 में वर्णित अनुसार संपत्तियों पर प्रतिभृति हित के कब्जे के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए बाधित होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कानून के तहत उक्त वित्तीयों के ऋणी / सह—ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ताओं के विरूद्ध **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उपलब्ध अनुसार ऐसे अधिकारों व उपायों के पूर्वाग्रह के बिना है। इसके अतिरिक्त आपसे ध्यान देने का अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप प्रतिभृतित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूतित परिसंपत्ति को बिक्री, लीज या अन्यथा के द्वारा उक्त प्रतिभृति के साथ निपटान या डीलिंग या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित / बाधित हैं।

दिनांक : 29.05.2023 स्थान : दिल्ली एनसीआर

हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लि

(₹ in lacs)

# **JKC**ement J.K. Cement Ltd.

CIN No.: L17229UP1994PLC017199

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.) Ph.: +91 512 2371478 to 81; Fax: +91 512 2399854/ 2332665

## EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

website: www.jkcement.com; e-mail: shambhu.singh@jkcement.com

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

						(₹ in lacs)
				CONSOLIDATED	,	
CI		Three Months	Three Months	Three Months	Year	Year
SI.	Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
No		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	2,81,584.88	2,45,480.87	2,39,298.41	9,80,760.44	8,13,369.14
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	35,939.82	24,732.48	39,879.93	1,31,965.61	1,53,473.49
3.	Net Profit for the Period before share (Loss) in associates and tax (before Exceptional and Extraordinary items)	15,781.78	6,926.29	26,266.94	63,129.16	1,01,312.44
4.	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items*)	15,816.76	6,918.94	26,245.77	63,129.16	1,01,291.27
5.	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items*)	11,008.75	3,715.60	19,944.00	41,907.95	67,921.11
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10,634.34	4,686.18	21,181.02	46,761.92	69,552.63
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- Per Share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,80,828.82	3,70,194.47	3,45,657.15	3,80,828.83	3,45,657.14
9.	Security Premium Account	75,679.66	75,679.66	75,679.66	75,679.66	75,679.66
10	. Net Worth	4,64,235.31	4,53,600.96	4,29,063.63	4,64,235.31	4,29,063.63
11.	. Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	4,39,888.74	4,01,553.72	3,31,747.09	4,39,888.74	3,31,747.09
12.	. Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA
13.		1.08	1.01	0.90	1.08	0.90
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) · (Not Annualized except Period / Year ended )	14.53	4.81	25.81	55.17	87.90
15.	. Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
16.	. Debenture Redemption Reserve	2,057.35	3,364.70	3,364.70	2,057.35	3,364.70
17.	. Debt Service Coverage Ratio	1.89	1.22	2.24	1.60	1.77
18.	. Interest Service Coverage Ratio	3.96	3.45	5.94	4.61	6.13

\*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.

- The above is an extract of the detailed format of audited auarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:-www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.ikcement.com.
- Kev Standalone Financial Information:

		STANDALONE				
		Three Months	Three Months	Three Months	Year	Year
SI.	Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
No.		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	2,41,846.65	2,30,978.62	2,31,013.28	9,08,152.75	7,82,138.00
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	37,208.34	26,689.73	39,735.55	1,34,646.95	1,53,602.49
3.	Net Profit for the Period before share (Loss) in associates and tax (before Exceptional and Extraordinary items)	23,367.00	12,858.53	27,924.36	80,025.72	1,09,353.57
4.	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items*)	23,367.00	12,858.53	14,924.36	80,025.72	96,353.57
5.	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items*)	15,997.47	9,657.29	8,626.49	56,254.10	63,067.72
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16,031.48	9,752.44	8,904.75	56,573.57	63,448.33
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- Per Share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,86,743.80	3,70,712.32	3,41,760.47	3,86,743.80	3,41,760.47
9.	Security Premium Account	75,679.66	75,679.66	75,679.66	75,679.66	75,679.66
10.	Net Worth	4,70,150.28	4,54,118.80	4,25,166.95	4,70,150.28	4,25,166.95
11.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	2,78,695.87	2,56,104.72	2,73,275.54	2,78,695.87	2,73,275.54
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA
13.	Debt Equity Ratio	0.68	0.67	0.76	0.68	0.76
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) (Not Annualized except Period / Year ended )	20.70	12.50	11.16	72.80	81.62
15.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
16.	Debenture Redemption Reserve	2,057.35	3,364.70	3,364.70	2,057.35	3,364.70
17.	Debt Service Coverage Ratio	2.16	1.41	2.64	1.71	2.03
18.	Interest Service Coverage Ratio	5.91	4.40	6.31	5.61	6.60

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 27 May, 2023

Dr. Raghavpat Singhania Managing Director DIN: 02426556









WallMaxX





For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email